

**CENTRE FOR DEVELOPMENT OF STONES**  
**ELECTION OF GOVERNING BOARD MEMBERS FROM TRADE FOR THE TERM 2021-23**

गोपनीय ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया / निर्देश

- सदस्यों द्वारा प्रदान की गई **मोबाइल नंबर** का उपयोग करके प्रत्येक सदस्य की एक विशिष्ट **लॉगिन आईडी** बनाई गई है। उन सदस्यों की विशिष्ट आईडी जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए अनुरोध के अनुसार अद्यतन विवरण प्रदान नहीं किया है उनकी **लॉगिन आई डी** सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट ऑफ स्टोन्स (सीडॉस) के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार बनाई गई है।
- जहां कहीं भी सदस्य द्वारा **मोबाइल नंबर** प्रदान नहीं किया गया है, वहां सीडॉस के पास उपलब्ध **ईमेल आईडी** के साथ विशिष्ट आईडी बनाई गई है।
- लॉगिन पेज के लिए लिंक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक सदस्य के **मोबाइल नंबर** पर **SMS** द्वारा भेजा जाएगा। यदि सदस्य द्वारा **मोबाइल नंबर** प्रदान नहीं किया गया है, तो लॉगिन पेज का लिंक सदस्य की **ईमेल आईडी** पर भेजा जाएगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करके सदस्य लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। लॉगिन पेज पर सदस्य के पहले से भरे हुए **मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी**, जैसा भी मामला हो, और एक **"GET OTP"** बटन के साथ एक विंडो दिखाई देगी। **GET OTP** बटन पर क्लिक करने पर सदस्य को उसके मोबाइल नंबर पर **OTP** प्राप्त होगा। यदि **मोबाइल नंबर** प्रदान नहीं किया गया हो, तो सदस्य को **ईमेल** द्वारा **OTP** प्राप्त होगा।
- लॉगिन पेज पर ओटीपी स्लॉट में **OTP** दर्ज करने पर, मतदान के लिए मतपत्र प्रदर्शित किया जाएगा। मतपत्र पर उम्मीदवार के नाम के समक्ष बटन पर क्लिक करके मतदान किया जा सकता है।
- चूंकि पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र से कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है, परिणामतः दो रिक्त पदों को सीडॉस के नियम और विनियम के अनुसार राजस्थान जोन से **13** पदों में जोड़ा गया है। इस प्रकार राजस्थान जोन में चुनाव हेतु **15** पद उपलब्ध हैं।
- नामांकन वापस लेने और नामांकन की जाँच की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मैदान में राजस्थान जोन से शेष **17** उम्मीदवारों में से अधिकतम **15** उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है।
- दक्षिणी क्षेत्र के **3** और उत्तरी क्षेत्र के **1** सदस्य के लिए कोई चुनाव नहीं होगा क्योंकि इन क्षेत्रों से चार पदों के विरुद्ध प्राप्त नामांकनों की जांच के बाद केवल चार उम्मीदवार ही हैं अतः उनके चुनाव की आवश्यकता नहीं है।

- मतदान सफलतापूर्वक पूरा करने पर, प्रत्येक सदस्य को इसके बारे में **ईमेल** द्वारा एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
- एक बार मतदान पूरा हो जाने पर सदस्य सहित कोई भी व्यक्ति मतदान को बदल/संशोधित नहीं कर सकता है।
- ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म 15 सितंबर 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक खुला रहेगा और सदस्य इस समयस्लॉट के दौरान ही मतदान कर सकेंगे। 15 सितंबर 2021 को अपराह्न 3.00 बजे मतदान बंद कर दिया जाएगा और मतगणना के बाद परिणाम घोषित/प्रकाशित किया जाएगा।